



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 1978/चैत्र 6, 1900
No. 94] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 1978/CHAITRA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

जनणज्ज, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1978

सा. ख. नि. 191(अ).—केंद्रीय सरकार बाट और माप मानक (पैकेज में रखी गई वस्तु) नियम, 1977 के नियम 1 के उप-नियम (4) के उपबन्धों के अनुसरण में और भारत सरकार के नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 621 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 1977 का आंशिक उपान्तरण करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 781 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1977 के अधिक्रान्त करते हुए 1 जुलाई 1978

को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त नियमों के निम्नलिखित उप-बन्ध प्रवृत्त हो जाएंगे, अर्थात् :—

- (1) नियम 5;
- (2) नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) और (ख);
- (3) नियम 7;
- (4) नियम 12 के उपनियम (3), (4), (5) और (6);
- (5) नियम 13, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, और
- (6) नियम 34 के उपबन्धों का उतना अंश जिसका सम्बन्ध किसी कर्मशाला, सर्विस स्टेशन या किसी अन्य स्थान में, जहाँ किसी बाइसिकल या ट्राइसिकल की सर्विसिंग या मरम्मत होती है, प्रयोग में लाए जाने वाले किसी संघटक, पुर्जे या पदार्थ से है।

[सं. फा. डब्ल्यू. एम.-9(36)/77]

टी. बालकृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1978

G.S.R. 191(E).—In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of rule 1 of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, in partial modification of the notification of the Government of India in the late Ministry of Civil Supplies and Cooperation No. G.S.R. 621(E), dated the 26th September, 1977, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Civil Supplies and Cooperation No. G.S.R. 781(E), dated the 29th December, 1977, the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 1978, as the date on which the following provisions of the said rules shall come into force, namely :—

- (i) rule 5;
- (ii) clauses (e) and (g) of sub-rule (1) of rule 6;
- (iii) rule 7;
- (iv) sub-rules (3), (4), (5) and (6) of rule 12;
- (v) rules 13, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33; and
- (vi) so much of the provisions of rule 34 as relate to any component, part or material used in any workshop, service station or any other place where servicing or repairing of any bicycle or tricycle is undertaken.

[F. No. WM-9(36)/77]

T. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.